

(ख) 106 रु० 60 पैसे की केवल एक डिग्री एकतरफा पास की गया थी। अन्य सभी मामलों में वकील रखे गये थे और उन्हें कुल 4,71,122 रु० 38 पैसे का भुगतान किया गया था।

### रेल उपकरणों का आयात

3159 श्री मूलचन्द डागत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रेलवे विभाग द्वारा 1971 में आयात किये गये उपकरणों का वगीरा तथा मूल्य क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ख) रेल विभाग इन उपकरणों को स्वदेश में ही कब तक उपलब्ध करने योग्य हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तया) (क) 1970-71\* में खरीद गये आयातित भण्डार का कुल मूल्य 32 59 करोड़ रुपये था जो कुल खरीद का लगभग 9 प्रतिशत था। आयातित भण्डार में मुख्यतः बिजली इन्जनों डीजल इन्जनों और बिजली गाडी के डिब्बों के अवयव और अतिरिक्त पुर्जों, बिजली के सिगनल और दूर संचार के परिष्कृत उपस्तर और इस्पात तथा अलौह कच्चे माल की कुछ मदे थी। इन वस्तुओं का आयात अनिवार्य था क्योंकि ये मदे या तो अपने देश में उपलब्ध नहीं थी या देगी क्षमता अपर्याप्त थी।

(ख) आयात को बिल्कुल ही बन्द करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि आयात अब केवल कुछ अनिवार्य कच्चे माल, मालिकाना तथा अन्य मदे तक सीमित है जिनके लिए परिष्कृत निर्माण तकनीक और कुछ मामलों में विदेशी सहयोग

\*यू कि अभिकेखों का अनुरक्षण कलेडर वर्ष के अनुसार नहीं किया जाता, अन्वित्तीय वर्ष 1970-71 के आकड़े दिये गये हैं।

की आवश्यकता पड़ती है। देशी मामलों को अधिकतम मात्रा में खपाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कुल खरीद में आयातित अंश की, जो 1955-56 में लगभग 26 प्रतिशत था, घटाकर 1970-71 में लगभग 9 प्रतिशत तक ला दिया गया है।

### Failure of firms to discharge their export obligations

3160 SHRI INDRAJIT GUPTA Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state

(a) whether it has come to the notice of Government that a number of firms after obtaining licences for expansion on the condition that a certain percentage of their production would be exported have failed to discharge their obligation in regard to export

(b) if so, the number of such cases brought to the notice of Government and details thereof, and

(c) the action if any taken against the defaulting firms ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A C GEORGE) (a) to (c) No case of default in the export obligation has come to the notice of the Government during the last five years, where licences for the import of machinery to expand the manufacturing capacity, has been issued subject to the condition that a certain percentage of their production would be exported

### टी-स्टालों और अन्य स्टालों का आवंटन करने के लिए प्रार्थनापत्र

3161 डा० लक्ष्मी नारायण पाडेय . क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) टी-स्टालों तथा अन्य स्टालों के आवंटन के लिए वित्त प्रार्थनापत्र पश्चिम रेलवे के रतलाम मण्डल अधीक्षक के विचाराधीन है और ये प्रार्थनापत्र कब से विचाराधीन हैं ;